

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 358] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 19, 1983/भाद्र 28, 1905
No. 358] NEW DELHI, MONDAY, SEPT. 19, 1983/BHADRA 28, 1905

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

पर्यावरण विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 सितम्बर 1983

सा० का० नि० 722 (अ).--केन्द्रीय सरकार, वन्य प्राणी (संरक्षण) अधि-
नियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 63 की उपधारा (1) के खंड (ख)
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वन्य प्राणी (संव्यवहार और चर्मपूर्ण)
दादरा और नागर हवेली नियम, 1973 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित
नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वन्य प्राणी (संव्यवहार और चर्म-
पूर्ण) दादरा और नागर हवेली संशोधन) नियम, 1983 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. वन्य प्राणी (संव्यवहार और खर्चपूर्ण) दादरा और नागर हवेली नियम, 1973 के नियम 4 के उपनियम (1) में, “सात दिन” शब्दों के स्थान पर, “तीस दिन” शब्द रखे जाएंगे।

[सं० 1-11/79-एफआरआई (वन्यू एल) (xi)]

समर सिंह, सयुक्त सचिव

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th September, 1983

G.S.R. 722(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 63 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Wild Life (Transactions and Taxidermy) Dadra and Nagar Haveli Rules, 1973, namely :—

(1) These rules may be called the Wild Life (Transactions and Taxidermy Dadra & Nagar Haveli (Amendment) Rules, 1983.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In sub-rule (1) of rule 4 of the Wild Life (Transactions and Taxidermy) Dadra & Nagar Haveli Rules, 1973, for the words “seven days”, the words “thirty days” shall be substituted.

[No. 1-11/79-FRY (WL) (xi)]

SAMAR SINGH, Jt. Secy.